



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 748]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 18, 2018/आश्विन 26, 1940

No. 748]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 18, 2018/ASVINA 26, 1940

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2018

सा.का.नि. 1042(अ).—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग), नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप नियम (1) और (2) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, ओडिसा सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः—

1.(i) इन विनियमों को भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) तृतीय संशोधन नियमावली, 2018 कहा जा सकेगा।

(ii) ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "ओडिसा" शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"ओडिसा"

राज्य सरकार के अंतर्गत वरिष्ठ पद	107
पुलिस महानिदेशक, ओडिसा	1
कमांडेंट जनरल, होम गार्ड्स और महानिदेशक और पुलिस महा निरीक्षक - अग्निशमन सेवा	1

अपर पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक – सीआईडी, अपराध शाखा	1
निदेशक-सह-अपर पुलिस महानिदेशक – आसूचना	1
अपर पुलिस महानिदेशक – एचआरपीसी	1
अपर पुलिस महानिदेशक – एस.ए.पी.	1
पुलिस महानिरीक्षक, कारागार एवं निदेशक सुधार सेवाएं	1
अपर पुलिस महानिदेशक – सतर्कता	1
अपर पुलिस महानिदेशक – प्रशिक्षण	1
अपर पुलिस महानिदेशक – मुख्यालय	1
अपर पुलिस महानिदेशक – कानून एवं व्यवस्था	1
अपर निदेशक-सह-पुलिस महानिरीक्षक - आसूचना	1
पुलिस महानिरीक्षक – सीआईडी अपराध शाखा	1
पुलिस महानिरीक्षक – सतर्कता	1
पुलिस महानिरीक्षक – कार्मिक	1
पुलिस महानिरीक्षक – आधुनिकीकरण	1
पुलिस महानिरीक्षक – अग्निशमन सेवा एवं होम गार्ड	1
पुलिस महानिरीक्षक – रेलवे	1
पुलिस महानिरीक्षक – फॉरेंसिक साइंस सर्विस	
सरकार के विशेष सचिव – गृह विभाग	1
पुलिस महानिरीक्षक – प्रशिक्षण	1
पुलिस महानिरीक्षक – आपरेशन (नक्सल विरोधी कार्रवाई)	1
पुलिस महानिरीक्षक – प्राविजनिंग	1
पुलिस महानिरीक्षक – विशेष शस्त्र बल	1
निदेशक – राज्य क्राइम (अपराध) रिकॉर्ड ब्यूरो	1
पुलिस महानिरीक्षक – रेंज	3
पुलिस आयुक्त दो संलग्न शहर, भुवनेश्वर और कटक	1
पुलिस महानिरीक्षक – मानव अधिकार सुरक्षा प्रकोष्ठ	1
अपर पुलिस आयुक्त, बीबीएसवार-सीटीसी	1
पुलिस महानिरीक्षक, ईओडब्ल्यू	1
उप पुलिस महानिरीक्षक – रेंज	4
उप पुलिस महानिरीक्षक – सतर्कता	2
उप पुलिस महानिरीक्षक – कार्मिक	1
उप पुलिस महानिरीक्षक – संचार	1
उप पुलिस महानिरीक्षक – प्रशिक्षण	1
उप पुलिस महानिरीक्षक – होम गार्ड	1
उप पुलिस महानिरीक्षक – आधुनिकीकरण	1

उप पुलिस महानिरीक्षक – मानव अधिकार और सामाजिक न्याय	1
उप पुलिस महानिरीक्षक – मुख्यालय	1
उप पुलिस महानिरीक्षक – असूचना	1
उप पुलिस महानिरीक्षक – सीआईडी/अपराध	1
उप पुलिस महानिरीक्षक – कंप्यूटर	1
उप पुलिस महानिरीक्षक – एस.ए.पी.	1
अपर पुलिस आयुक्त	1
प्रधानाचार्य, पुलिस प्रशिक्षण विश्वविद्यालय	1
पुलिस आयुक्त, संबलपुर	1
पुलिस अधीक्षक – कटक	1
पुलिस अधीक्षक – केंद्रपारा	1
पुलिस अधीक्षक – जजपुर	1
पुलिस अधीक्षक – जगतसिंहपुर	1

पुलिस अधीक्षक – पुरी	1
पुलिस अधीक्षक – खुर्दा	1
पुलिस अधीक्षक – नयागढ़	1
पुलिस अधीक्षक – बालासोर	1
पुलिस अधीक्षक – भद्रक	1
पुलिस अधीक्षक – मयुरभंज	1
पुलिस अधीक्षक – गंजाम	1
पुलिस अधीक्षक – गजापति	1
पुलिस अधीक्षक – कंधमाल	1
पुलिस अधीक्षक – बोध	1
पुलिस अधीक्षक – कोरापुत	1
पुलिस अधीक्षक – नवरंगपुर	1
पुलिस अधीक्षक – मल्कानगिरी	1
पुलिस अधीक्षक – रायगढ़	1
पुलिस अधीक्षक – कालहंडी	1
पुलिस अधीक्षक – नवपाड़ा	1
पुलिस अधीक्षक – संबलपुर	1
पुलिस अधीक्षक – बारगढ़	1
पुलिस अधीक्षक – देवगढ़	1
पुलिस अधीक्षक – झरसुगुडा	1
पुलिस अधीक्षक – बोलनगिर	1
पुलिस अधीक्षक – सोनपुर	1

	पुलिस अधीक्षक – धेनकनाल	1
	पुलिस अधीक्षक – अंगुल	1
	पुलिस अधीक्षक – सुंदरगढ़	1
	पुलिस अधीक्षक – क्योन्नर	1
	पुलिस अधीक्षक – बेरहामपुर	1
	पुलिस अधीक्षक – राऊरकेला	1
	पुलिस अधीक्षक – सतर्कता	4
	पुलिस अधीक्षक – अपराध शाखा	2
	पुलिस अधीक्षक – विशेष शाखा	1
	सहायक पुलिस महानिरीक्षक – राज्य पुलिस मुख्यालय	1
	पुलिस अधीक्षक – रेलवे	2
	कमांडेंट	4
	अपर पुलिस अधीक्षक – जिला/उप कमांडेंट, बटालियन (बीएनएस)	4
	उप पुलिस आयुक्त – क्षेत्रीय	2
	उप पुलिस आयुक्त – क्षेत्रीय, राऊरकेला पुलिस आयुक्तालय	1
	उप पुलिस आयुक्त - क्षेत्रीय, बेरहामपुर पुलिस आयुक्तालय	1
	उप पुलिस आयुक्त - क्षेत्रीय संबलपुर	1
1.	कुल वरिष्ठ झूटी पद	107
2.	केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व (उपर्युक्त मद 1 के 40% से अधिक नहीं)	42
3.	राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व (उपर्युक्त मद 1 के 25% से अधिक नहीं)	26
4.	प्रशिक्षण रिजर्व (उपर्युक्त मद 1 के 3.5% से अधिक नहीं)	03
5.	छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपरोक्त के मद 1 के 16.5% से अधिक नहीं	17
6.	भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 9 के अन्तर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपरोक्त मद 1, 2, 3 और 4 के 331/3 % से अधिक नहीं)	56
7.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1+2+3+4+5-6)	136
	कुल प्राधिकृत पद संख्या	195"

[फा. सं. 11052/10/2017-एआईएस-1।(क)]

ज्योत्सना गुप्त, अवर सचिव

टिप्पणी (1): इस अधिसूचना के जारी होने के पूर्व, ओडिसा के संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 188 थी।

टिप्पणी (2): प्रधान विनियम दिनांक 22 अक्टूबर, 1955 की एस.आर.ओ. सं. 3350, के अन्तर्गत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात्, ओडिसा संवर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा इन्हें संशोधित किया गया था:—

क्रम संख्या	सा.का.नि. संख्या	तारीख	क्रम संख्या	सा.का.नि. संख्या	तारीख
1.	790ई	07.09.76	8.	340ई	29.03.94
2.	621ई	06.05.89	9.	320ई	31.03.95
3.	344ई	29.03.94	10.	740ई	31.12.97
4.	430	05.05.84	11.	115ई	03.03.98
5.	446	04.06.88	12.	192ई	24.03.09
6.	27	29.01.89	13.	243ई	30.03.10
7.	309	06.05.89			

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions**(Department of Personnel and Training)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th October, 2018

G.S.R. 1042(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rules (1) and (2) of rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of **Odisha**, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These Regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of cadre Strength) Third Amendment Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, in the Schedule, for the heading “**Odisha**” and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:—

“Odisha

Senior Duty Posts under the State Government	107
Director General of Police, Odisha	1
Commandant General Home Guards & Director General and Inspector General of Police- Fire Services	1
Additional Director General & Inspector General of Police- CID, Crime Branch	1
Director- cum- Additional Director General of Police- Intelligence	1
Additional Director General of Police- HRPC	1
Additional Director General of Police- S.A.P.	1
Inspector General of Prisons & Director Correctional Services	1
Additional Director General of Police- Vigilance	1
Additional Director General of Police- Training	1
Additional Director General of Police- Headquarters	1
ADGP, Law & Order	1
Additional Director- Cum- Inspector General of Police- Intelligence	1
Inspector General of Police- CID, Crime Branch	1
Inspector General of Police- Vigilance	1
Inspector General of Police- Personnel	1
Inspector General of Police-Modernization	1
Inspector General of Police- Fire Services & Home Guards	1
Inspector General of Police- Railways	1
Inspector General of Police- Forensic Science Service	1
Special Secretary to Government- Home Department	1
Inspector General of Police- Training	1
Inspector General of Police- Operations (Anti- Naxalite Activities)	1
Inspector General of Police- Provisioning	1
Inspector General of Police- Special Armed Police	1
Director- State Crime Record Bureau	1
Inspector General of Police - Ranges	3
Commissioner of Police Twin Cities, Bhubaneswar & Cuttack	1
Inspector General of Police- Human Rights Protection Cell	1
Addl. CP, BBSR-CTC	1
Inspector General of Police, EOW	1
Deputy Inspector General of Police – Ranges	4

Deputy Inspector General of Police – Vigilance	2
Deputy Inspector General of Police – Personnel	1
Deputy Inspector General of Police – Communication	1
Deputy Inspector General of Police – Training	1
Deputy Inspector General of Police – Home Guards	1
Deputy Inspector General of Police – Modernization	1
Deputy Inspector General of Police – Human Rights and Social Justice	1
Deputy Inspector General of Police – Headquarters	1
Deputy Inspector General of Police – Intelligence	1
Deputy Inspector General of Police – CID/Crime	1
Deputy Inspector General of Police – Computers	1
Deputy Inspector General of Police – S.A.P.	1
Additional Commissioner of Police	1
Principal, Police Training College	1
Commissioner of Police, Sambalpur	1
Superintendent of Police – Cuttack	1
Superintendent of Police – Kendrapara	1
Superintendent of Police – Jajpur	1
Superintendent of Police – Jagatsinghpur	1
Superintendent of Police – Puri	1
Superintendent of Police – Khurda	1
Superintendent of Police – Nayagarh	1
Superintendent of Police – Balasore	1
Superintendent of Police – Bhadrak	1
Superintendent of Police – Mayurbhanj	1
Superintendent of Police – Ganjam	1
Superintendent of Police – Gajapati	1
Superintendent of Police – Kandhmal	1
Superintendent of Police – Boudh	1
Superintendent of Police – Koraput	1
Superintendent of Police – Nawarangpur	1
Superintendent of Police – Malkangiri	1
Superintendent of Police – Rayagad	1
Superintendent of Police –Kalahandi	1
Superintendent of Police – Nvapada	1
Superintendent of Police – Sambalpur	1
Superintendent of Police – Bargarh	1
Superintendent of Police – Deogarh	1
Superintendent of Police – Jharsuguda	1
Superintendent of Police – Bolangir	1
Superintendent of Police – Sonapur	1
Superintendent of Police – Dhenkanal	1
Superintendent of Police – Angul	1
Superintendent of Police – Sudargarh	1
Superintendent of Police – Keonjhar	1
Superintendent of Police – Berhampur	1
Superintendent of Police – Rourkela	1
Superintendent of Police – Vigilance	4
Superintendent of Police – Crime Branch	2
Superintendent of Police – Special Branch	1
Assistant Inspector General of Police- State Police Headquarters	1
Superintendent of Police- Railways	2
Commandant	4
Additional Superintendent of Police- Districts/ Deputy Commandant, Bns	4
Deputy Commissioner of Police- Territorial	2
Deputy Commissioner of Police-Territorial, Rourkela Police Commissionerate	1
Deputy Commissioner of Police- Territorial Berhampur Police Commissionerate	1
Deputy Commissioner of Police- Territorial Sambalpur	1

1	Total Senior Duty Posts	107
2	Central Deputation Reserve not exceeding 40% of item 1 above	42
3	State Deputation Reserve not exceeding 25% of item 1 above	26
4	Training Reserve not exceeding 3.5% of item 1 above	03
5	Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above	17
6	Posts to be filled by promotion under Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33 1/3% of Item 1,2,3 & 4 above	59
7	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)	136
	Total Authorized Strength	195

[F. No. 11052/10/2017- AIS-II (A)]

JYOTSNA GUPTA, Under Secy.

Note (1): Prior to issue of this notification, the Total Authorized Strength of Odisha Cadre was 188.

Note (2): The principal regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350 dated 22nd October 1955. These were subsequently amended in respect of the Odisha Cadre by the following GSR No. and date:-

Sl.No.	GSR No.	Date	Sl.No.	GSR No.	Date
1.	790E	07.09.76	8.	340E	29.03.94
2.	621E	06.05.89	9.	320E	31.03.95
3.	344E	29.03.94	10.	740 E	31.12.97
4.	430	05.05.84	11.	115E	03.03.98
5.	446	04.06.88	12.	192E	24.03.09
6.	27	29.01.89	13.	243E	30.03.10
7.	309	06.05.89			